

परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय, क्रमांक -3 – रावतभाटा

कक्षा- 9

प्रथम आविधिक प्रश्न पत्र – 2019

समय – 90 मिनट

विषय- हिंदी

पूर्णांक – 40

प्रश्न-1. निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए – 10 अंक

विद्यार्थी जीवन को मानव जीवन की रीड की हड्डी कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। विद्यार्थी काल में बालक में जो संस्कार पड़ जाते हैं, जीवन भर वही संस्कार अमिट रहते हैं। इसीलिए यही काल आधारशिला कहा गया है। यदि यह नीवं दृढ़ बन जाती है तो जीवन भी सुदृढ़ और सुखी बन जाता है। यदि मन लगाकर अध्ययन कर लेता है तो उसे ज्ञान मिलता है, उसका मानसिक विकास होता है। जिस वृक्ष को प्रारम्भ में अच्छी सिचाई और खाद मिल जाती है, वह पुष्पित एवं पल्लवित होकर संसार को सौरभ देने लगता है। इसी प्रकार विद्यार्थी काल में जो बालक श्रम, अनुशासन, समय एवं नियमन के ढाँचे में ढल जाता है, वह आदर्श विद्यार्थी बनकर सभ्य नागरिक बन जाता है। सभ्य नागरिक के लिए जिन-जिन गुणों की आवश्यकता है, उन गुणों के लिए विद्यार्थी काल ही तो सुंदर पाठशाला है। यहाँ पर अपने साथियों के बीच रह कर वे सभी गुण आ जाने आवश्यक है, जिनकी कि विद्यार्थी को अपने जीवन में आवश्यकता होती है।

१. इस गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। 1
२. जिस वृक्ष को प्रारम्भ में खाद मिल जाती है वह कैसा होता है? 1
३. मानव जीवन की रीड की हड्डी विद्यार्थी जीवन को क्यों कहा जाता है? 2
४. आदर्श विद्यार्थी से क्या तात्पर्य है? 2
५. विद्यार्थी के मानसिक विकास के लिए आवश्यक है? 2
६. सभ्य नागरिक से आप क्या समझते हैं? 2

प्रश्न-2. निम्न प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए - $3 \times 5 = 15$ अंक

- क. कवयित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं?
- ख. छोटी बच्ची के मन में बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया ?
- ग. लेखक लड्कोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गया ?
- घ. 'रस्सी कच्चे धागे की, खींच रहीं मैं नाव।' यहाँ 'रस्सी' किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और वह कैसी है?
- ङ. किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से? 'कबीर' पाठ के आधार पर तर्क सहित उत्तर दीजिए।

प्रश्न-3. आपका नामांकन किसी नए विद्यालय में करवाया गया है। यहाँ आपके लिए सब कुछ नया है तथा आपका मन भी नहीं लग रहा है। आपके भाई-बहन दूसरे शहर में रहते हैं, उन्हें पत्र द्वारा अपनी समस्याओं को अवगत करवाएं। **अथवा**

सावर्जनिक पार्कों की समुचित सफाई नहीं होने पर सफाई-कर्मचारियों की शिकायत करते हुए नगर-निगम के स्वास्थ्य-अधिकारी को एक पत्र लिखिए। **अंक- 5**

प्रश्न-4. दिए गए संकेत बिन्दुओं के आधार पर 200-250 शब्दों में निबंध लिखिए। 10 अंक

क. विज्ञापन और हमारा जीवन

- विज्ञापन का अर्थ
- लुभावने विज्ञापन
- विज्ञापनों का प्रभाव
- झूठे विज्ञापन
- गलत विज्ञापनों पर रोक के उपाय

ख. वनों का महत्त्व

- पर्यावरण में वनों का स्थान
- वनों के कटने के कारण
- वन समाप्त होने की हानियाँ
- समाधान

क. ग्लोबल-वार्मिंग और जन-जीवन

- ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ एवं स्वरूप
- हानियाँ और खतरे
- बचाव के उपाय
- उपसंहार

घ. सोशल नेटवर्किंगवरदान या अभिशाप -

- प्रस्तावना
- सोशल नेटवर्किंग के लाभ
- सोशल नेटवर्किंग से हानियाँ
- उचित उपयोग के लिए सुझाव
- उपसंहार

